

8 יושב במארב קצרים במסתרם יתרג ונקי עניו לחלקה יצפנו:
 वह-बैठता-है में-घात गांवों-की गुप्त-स्थानों-में वह-मारता-है निर्दोष-को उसकी-आंखें बेचारे-पर छिपी-होती-हैं
 H3427 H3993 H4565 H2026 H2489 H6845

ऐसे लोग गुप्त स्थानों में छिपे रहते हैं, और लोगों को फँसाने की प्रतीक्षा करते हैं। वे लोगों को हानि पहुँचाने के लिये छिपे रहते हैं और निरपराधी लोगों की हत्या करते हैं।

9 יארב ובמסתר קאררה בסכה עני לחטוף יחטף
 वह-घात-लगाता-है गुप्त-में सिंह-की-तरह अपनी-मांद-में वह-घात-लगाता-है गरीब-को पकड़ने-को वह-पकड़ता-है
 H0693 H4565 H5520 H2414 H6041 H2414

עני במשכו ברשתו:
 गरीब-को खींचकर-उसे अपने-जाल-में
 H6041 H4900 H7568

दुष्ट जन सिंह के समान होते हैं जो उन पशुओं को पकड़ने की घात में रहते हैं। जिन्हें वे खा जायेंगे। दुष्ट जन दीन जनों पर प्रहार करते हैं। उनके बनाये गये जाल में असहाय दीन फँस जाते हैं।

10 ודכה ודכה) ישח ונפל בעצומו חלכאים תיל) כאים:
 वह-झुकता-है वह-नीचा-होता-है और-गिरते-हैं उसकी-शक्ति-से बल दबे-हुए
 H1794 H7817 H5307 H6099 H2426 H3512 H2489 H1794

दुष्ट जन बार—बार दीन पर घात करता और उन्हें दुःख देता है।

11 אמר בלבו שקח אל אומר בל-פניו הסתיר אל
 उसने-कहा अपने-मन-में भूल-गया-है एल उसने-छिपाया अपना-मुख कभी-नहीं वह-देखेगा कभी-नहीं
 H0559 H7911 H0410 H5641 H6440 H1077 H7200 H5331

अतः दीन जन सोचने लगते हैं, “परमेश्वर ने हमको भुला ही दिया है! हमसे तो परमेश्वर सदा—सदा के लिये दूर हो गया है। जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा, उससे परमेश्वर ने दृष्टि फिरा ली है!”

12 קומה יהוה אל נשא ירה אל עניים) עניים) עניים)
 उठ यहोवा एल उठा अपना-हाथ उठा एल पीड़ितों-को पीड़ितों-को नग्नों-को
 H3068 H0410 H5375 H3027 H0408 H7911 H6041 H6035

हे यहोवा, उठ और कुछ तो कर! हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट जनों को दण्ड दे! और इन दीन दुखियों को मत बिसरा!

13 על-מה נאץ ורשע אלהים אמר בלבו לא תדרש:
 क्यों कैसे तिरस्कार-करे दुष्ट एलोहीम-को उसने-कहा अपने-मन-में नहीं तू-लेखा-लेगा
 H4100 H5006 H7563 H0430 H0559 H3808 H1875

दुष्ट जन क्यों परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी नहीं दण्डित करेगा।

14 חלקה יעזב עליה ביהוה ותביט ובעס עמל אמה כי-ראתה
 बेचारा सौंपता-है तुझ-पर अपने-हाथ-से देने-को देखता-है और-दर्द दुख तू क्योंकि परन्तु-तूने-देखा-है
 H2489 H3027 H5414 H5027 H5999 H7200

יתום אמה ה'ית עוזר:
 अनाथ तू रहा-है सहायक
 H3490 H1961 H5826

हे यहोवा, तू निश्चय ही उन बातों को देखता है, जो क्रूर और बुरी हैं। जिनको दुर्जन किया करते हैं। इन बातों को देख और कुछ तो कर! दुःखों से घिरे लोग सहायता माँगने तेरे पास आते हैं। हे यहोवा, केवल तू ही अनाथ बच्चों का सहायक है, अतः उन की रक्षा कर!

15 שבר זרוע רשע ורוע תדרוש- ורוע
 तोड़ भुजा दुष्ट-की और-बुरे खोज उसकी-दुष्टता कुछ-नहीं तू-पाएगा
 H7665 H2220 H1875 H7562 H1077 H4672

हे यहोवा, दुष्ट जनों को तू नष्ट कर दे।

16
 יְהוָה מֶלֶךְ עוֹלָם וָעֶד אֶבְרָהָם גֵּוֹיִם מִאֲרָצוֹת
 יהोवा मेलेह एओलम वेओद ओब्रेहओम गेओयिओम मिओरओत्सओत
 यहोवा राजा-है सदा और-सर्वदा नष्ट-हुई जातियां उसकी-भूमि-से
 H3068 H4428 H5769 H5703 H0006 H0776

तू उन्हें अपनी धरती से ढकेल बाहर कर

17
 תְּאַוֶּתְךָ עֲנִיִּים שְׁמַעַתָּה יְהוָה תְּכַוֵּן לִבְּךָ תִּקְשֵׁב אָזְנוֹךָ
 तेओवतेओके एओनीओम शेओमेओतेओतेओह येओवओह तेओकेओवनेओ तिकेओशेओब ओओनेओकेओ
 इओछा नओम्रीओकी तूनेओसुनीओहै यहोवा तूओतैओयारओकरेगा उनकेओहृदयओकी तूओकानओलगाएगा
 H8378 H6035 H8085 H3068 H0241 H7181

हे यहोवा, दीन दुःखी लोग जो चाहते हैं वह तूने सुन ली। उनकी प्रार्थनाएँ सुन और उन्हें पूरा कर जिनको वे माँगते हैं!

18
 לְשַׁפֵּט יְתוֹם וְיָתוּם וְיָתוּם וְיָתוּם וְיָתוּם וְיָתוּם וְיָתוּם וְיָתוּם
 लेओशेओपेओतेओतेओ अओनाथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका
 न्यायओकरनेओकी अओनाथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका ओओतओथओका
 H8199 H3490 H1790 H1077 H3254 H5750 H6206 H0582 H0776

हे यहोवा, अनाथ बच्चों की तू रक्षा कर। दुःखी जनों को और अधिक दुःख मत पाने दे। दुष्ट जनों को तू इतना भयभीत कर दे कि वे यहाँ न टिक पायें।